



मीन राशि

वाले

वर्ष 2018 में

क्या उपाय करें...

क्या

न

करें...



क्या न करें वर्ष 2018 में

- * चाटुकारिता से बचें।
- * दांपत्य जीवन की मर्यादा के साथ खिलवाड़ नहीं करें।
- * तानाशाही विचार धारा कलह पैदा करेगी।
- * जरूरी नहीं है कि हमेशा वातावरण आपके अनुकूल हो।

क्या उपाय करें वर्ष 2018 में

स्वास्थ्य में सुधार के लिए

- * प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पण करने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाए।
- * चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर डाले।
- * निर्धन, गरीब, बेसहारा कन्याओं को भोजन व वस्त्र दान देना उपयुक्त रहेगा।

पारिवारिक सुख-शांति व बाधा निवारण के लिए

- * शनि पूजा व तेलाभिषेक करें। हर शनिवार को तेल चढ़ाएं।

आर्थिक सुदृढ़ता के लिए

- * दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
- * नियमित श्रद्धानुसार दुर्गा नर्वाण मंत्र की तीन माला सुबह-शाम जाप करें।

संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष 6 दानें लाल धागे में सोमवार के दिन शुभ महुर्त में धारण करें। स्वच्छता का ध्यान रखें।